

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  
(मिनिरातना कंपनी)  
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited  
(AMiniratna Company)  
(A subsidiary of Coal India Limited)

## जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



**CIN- U10102MP1985GOI003160**

**An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company**

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी,जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889  
Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: [pro.ncl@coalindia.in](mailto:pro.ncl@coalindia.in) website : [www.nclcil.in](http://www.nclcil.in)

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/343

दिनांक- 21/10/2017

### प्रेस विज्ञप्ति

‘सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा’ के जरिए एनसीएल जन-जन में फैला रही है सतर्कता का संदेश

आम लोगों और कंपनी के हितग्राहियों (Stakeholders) में सतर्कता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड लिमिटेड (एनसीएल) इस वर्ष एक अनूठी पहल कर रही है। इसके तहत कंपनी अभियान चलाकर अपने अधिकारियों-कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों, आम लोगों और स्कूली बच्चों सहित समस्त हितग्राहियों को ‘सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा’ के जरिए जीवन में सत्यनिष्ठा के पालन का संकल्प दिला रही है।

इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय, सिंगरौली में विद्यालय के सभी अध्यापकों एवं लगभग 600 छात्र-छात्राओं को यह प्रतिज्ञा दिलाई गई। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सभी विद्यार्थियों से जीवन में हर काम पूरी ईमानदारी से करने और समाज से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटाने में सहयोग देने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिजनों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सेंट्रल विजिलेंस कमिशन - सीवीसी) की वेबसाइट [www.evc.nic.in](http://www.evc.nic.in) एवं एनसीएल की होल्डिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की वेबसाइट [www.coalindia.in](http://www.coalindia.in) पर उपलब्ध ‘ई-प्रतिज्ञा’ के जरिए जीवन में सत्यनिष्ठा के पालन का संकल्प लेने हेतु प्रोत्साहित करने की अपील भी की।

‘सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा’ अभियान के तहत कंपनी के झिंगुरदा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों और संविदा श्रमिकों को भी ‘सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा’ दिलाई गई। इस ‘सत्यनिष्ठा

प्रतिज्ञा अभियान में लोगों को सतर्क रहते हुए सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानदंडों के प्रति वचनबद्ध रहकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ रहने, जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करने, रिश्वत नहीं लेने एवं देने, सभी कार्य ईमानदारी एवं पारदर्शिता से करने, जनहित में कार्य करने, अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करने और भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को देने की प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है।

इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाने के उद्देश्य से कंपनी अपने कार्यक्षेत्र में आयोजित हो रहे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को यह शपथ दिला रही है।

जनसंपर्क अधिकारी